



सत्यमेव जयते

**राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक**

साइरियल प्रकाशित

**RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary**

Published by Authority

भाद्र 25, सोमवार, शाके 1941—सितम्बर 16, 2019  
Bhadra 25, Monday, Saka 1941—September 16, 2019

## भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT  
ORDER**

Jaipur, September 12, 2019

**F.10 (Elec) LSG/19/9966** .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Lakheri has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Lakheri. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer.

**By Order,**  
Ujjwal Rathore,  
**Joint Secretary to Government.**

कार्यालय नगर पालिका मण्डल लाखेरी जिला बून्दी (राज0)  
प्रोफार्मा ‘क’

वार्ड सं.	सीमा का विवरण
1 (एक)	श्री रघुनाथ जी महाराज के मंदिर से प्रारम्भ होते हुए बायें और चलते हुए श्री अमर लाल जी भट्ट को बायें लेकर पुराने तहसील भवन को दायें छोड़ते हुए चारभुजा मन्दिर को बायें लेकर यहां से नाइयों के खोहल्ले में घुसते हुए कपूरचन्द स्वर्णकार को दायें छोड़ते हुए खरन्जे पर चलते हुए दरवाजे के अन्दर चलते हुए बायें ओर के समस्त मकानों को बायें शामिल करते हुए सम्पूर्ण नाईयों के खोल्ले को दाये छोड़ते हुए रोड रोड चल कर भैरू जी के चबूतरे एवं माधो गुर्जर के मकान को दाये छोड़ते हुए यहां से फूटा रावला को बायें शामिल करते हुए पहाड़ के ऊपर छतरी तक वहां से पठार-पठार चलकर लकड़ेश्वर महादेव को बायें लेते हुए सम्पूर्ण गुर्जर मौहल्ला व महमदा पोल को बायें लेते हुए खान के सहारे व बाबा फागना को बायें लेकर नाले के सहारे-2 राम मौहल्ला के दरवाजे तक यहां से खातियों की टेक के पक्के रास्ते पर चलते हुए दांयी साईड के मकानों को दायें छोड़ते हुए निर्मल फोटोग्राफर के मकान को बायें लेते हुए सिढ़ीया चढ़ कर कन्हैया लाल बैरागी, दीनानाथ योगी, प्रमोद योगी, रामकल्याण नाइर, के मकानों को बांए लेकर श्योजी महाराज रामजीवण बैरागी, सीताराम जी का मन्दिर, नन्द किशोर दीक्षित, कमलेश चतुर्वेदी, महावीर छोगाला की दायी साईड को दाये छोड़ते हुए सुखदेव, नाथू लाल जी अद्यापक, सौरभ शर्मा वार्ड पार्षद, कमल राय, गोवर्धन

	सेदावत, कौशल तुगणायत को बायें लेकर लक्ष्मीनाथ मन्दिर को दायें छोड़ते हुए श्री रघुनाथ जी के मन्दिर पर आकर समाप्त होगा।
2 (दो)	राम मौहल्ला दरवाजे के पास पी.एच.ई.डी. ट्यूबवेल व पानी की टंकी के पास रमेष/हनुमान बैरागी व भैरूलाल गुर्जर के मकान से प्रारम्भ होकर जगदीश माली, रामजीवण बैरागी वाली सम्पूर्ण साइड को बायें शामिल करते हुए राज.सी.मा.वि. बालिका को दायें छोड़ते हुए हीरालाल आमेटा, हीरालाल खाती, जगन्नाथ सुखा माली के मकान को बायें शामिल कर सराय के गणेश जी को दायें छोड़ते हुए खेमराज रामजीवण सैनी अब्दुल मजीद शम्भू प्रसाद पारासर के प्लाट व टावर को दाये छोड़ते हुए मंगल चन्द अध्यापक छोटू लाल स्वर्णकार साई जी का तकीया हीरालाल सुनार हजारी लाल जैन गोपाल पटवारी को बायें लेकर भानु प्रताप श्रृंगी विद्यानन्द गुप्ता के प्लाट व टावर को दाये छोड़ते हुए रोड पर आकर प्रकाश जैन, हड्डीलाल बोहरा को बायें लेते हुए मोहन लाल गुप्ता ओम प्रकाश शर्मा को दाये छोड़ते हुए कपूरचन्द सुनार को बायें लेते हुए चारभुजा व रघुनाथ मन्दिर को दायें छोड़ते हुए तहसील भवन बड़ा जैन मन्दिर को बायें लेकर, बाबूलाल दुबे को बायें लेकर मदन लाल छोगाला को बाये लेकर गोविधन सेदावत कमल राय सुखदेव को दाये छोड़ते हुए कमलेष चतुर्वेदी नन्द किशोर दीक्षित व सीताराम जी का मन्दिर को बाये शामील करते हुए खातियों की टेक की ओर गली में चलकर रामकल्याण नाई दीनानाथ व प्रमोद योगी निर्मल फोटोग्राफर को दायें छोड़ते हुए शिव प्रसाद बैरागी रामजीवण बैरागी श्री किशन शर्मा व हेण्डपम्प को बाये लेकर यहा से राम मौहल्ला की ओर चलते हुए हनुमान बैरागीजोधराज बैरागी व जडावचन्द को दाये छोड़ते हुए पी.एच.ई.डी. की ट्यूबवेल व पानी की टंकी पर आकर समाप्त होगा।
3 (तीन)	सराय के गणेश जी के दरवाजे के पास नन्द किशोर अध्यापक के मकान से प्रारम्भ होकर दरवाजे से बाहर निकल कर रोड रोड चलते हुए सराय के गणेश जी को दाये छोड़ते हुए गुलाब चन्द सैनी वाईस चैयरमैन (पूर्व) की साइड को दाये छोड़ते हुए शंकर के मन्दिर भैरूलाल सैनी भीमराज सैनी की सम्पूर्ण बायी साईड को बाये लेते हुए मांगीलाल ऊकार लाल माली को बाये लेकर सुरेश किराना स्टोर व धन्ना श्रीराम माली की साईड को दाये छोड़ते हुए नाथू लाल माली माला वाले के मकान के पीछे व रेल्वे लाईन के सहारे सहारे नाले पर चलकर खारी बावड़ी के नाले व सीताराम आरा मर्शीन वाले को दायी साईड को छोड़ते हुए रेल्वे लाईन के सहारे सहारे चलकर मकान को बाये लेते हुए नगर पालिका शौचालय को बाये लेकर हटिला हनुमान मन्दिर को दाये छोड़ते हुए मोहन लाल राठोर छीतरलाल हलवाई की बायी साईड को बाये लेते हुए यहा से पुराने थाने की और चल कर शिव मन्दिर फकड़या महाराज की साईड को दाये छोड़ते हुए चन्द प्रकाश राठोर, उच्छब लाल हलवाई, महावीर पारासर की साईड को बाये लेते हुए विद्यानन्द गुप्ता के टावर वाले प्लाट तक यहां से बायी ओर गली में घुसकर प्रकाश जैन व हजारी लाल जैन के मकान वाली साईड को दाये छोड़ते हुए भानु प्रताप श्रृंगी शम्भू पारासर के प्लाट व टावर अब्दुल मजीद व रामजीवण सैनी के मकानों

	वाली साईंड को बाये लेते हुए हीरालाल सुनार साईं जी की तकिया छोटू लाल सुनार मंगल चन्द अध्यापक वाली साईंड को दाये छोड़ते हुए नन्द किशोर अध्यापक के मकान पर आकर समाप्त होगा।
4 (चार)	सराय के गणेश मन्दिर से प्रारम्भ होकर बाये साईंड के मकानों को बाये लेकर नन्द किशोर अध्यापक चेतराम सैनी, पन्नालाल हीरालाल खाती, रामजीवन बैरागी को दाये छोड़ते हुए जुगल किशोर सैनी, हरिनारायण कटारा चिन्तामणी व रा.उ.मा.वि., रामेश्वर शर्मा के मकानों वाली साइंड को बाये शामिल करते हुए प्रेम चन्द पंचोली आदि को बाए शामिल करते हुए राम मोहल्ला दरवाजे में घुसकर बाबूलाल बट्टीलाल पन्नालाल को बाए लेकर मोती लाल, गजानन्द, हिम्मतराम सैनी व चरणदास बालाजी को दाये छोड़ते हुए रामकल्याण, रामकुवार, श्यामलाल, रामनारायण प्रेमशंकर, मल्लू, छोटूलाल, गुलाबचन्द, सत्यनारायण बिरधीलाल को बाये लेकर गली में घुसकर हनुमान, श्रवणलाल, सत्यनारायण, शम्भू, प्रहलाद, धनराज, गोपाल, जगन्नाथ, बनवारी, मंगलचन्द, छीतरलाल को दायें छोड़ते हुए भूरा, रामनाथ माली व गणेश मन्दिर को बाए लेते हुए यहा से बायी ओर मुड़कर बाबूलाल/जन्सी व ग्यारसीराम, भवरलाल, प्रभु लाल, बिशना व पोखर माली के मकानों वाली साइंड को दाए छोड़ते हुए कैलाश कुम्हार, भंवर लाल पटवारी के मकानों वाली साइंड को बाए लेते हुए गणेशपुरा दरवाजे से बाहर निकलकर सब्जीमण्डीको बाये शामिल करते हुए सीताराम आरा मशीन धन्ना श्रीराम माली के मकान को बाये लेकर नाथू लाल माली के मकानों वाली साईंड को दाये छोड़ते हुए सुरेश किराना स्टोर गुलाब चन्द सैनी को बाये लेते हुए मांगी लाल सैनी भीमराज सैनी शिव मन्दिर को दाये छोड़ते हुए सराय गणेश जी के दरवाजे में घुसकर सराय गणेश मन्दिर पर आकर समाप्त होगा।
5 (पांच)	माताजी के मन्दिर से प्रारम्भ होकर रमेश मटाकी राजमल जैन को बाये शामिल करते हुए छात्रावास को दाये छोड़ते हुए भूत के खाल के सहरे सहारे तेजमल/धन्नालाल गुजर, गगांराम चतरा को बाये लेकर महावीर नगर योजना को दाये छाड़ते हुए भीमराज उकार माली मड़ू गुजर, बनवारी/ रामकल्याण माली को बाए शामिल करते हुए देवचन्द माली के कुए को दाये छोड़ते हुए भूत के खाल के सहरे सहारे मीठा कुआ नाथू लाल का कुआ, चैथमल का कुआ खारी बावडी को बाये लेकर हरि प्रसाद शर्मा गिरधारी माली के कुए को दाये छोड़ते हुए शिवजी लाल माली के कुए को बाये लेकर खारी बावडी के दरवाजे में होकर रोड पर आकर सीताराम आरा मशीन सब्जीमण्डी सैनी पब्लिक स्कूल को दाये छोड़ते हुए गणेशपुरा दरवाजे में घुसकर हेमराज बजरंग लाल राठोर भगवत नन्द लाल माली को बाए लेकर भवर लाल पटवारी राधेश्याम कैलाश बाई कुम्हार गणेश मन्दिर को दाये छोड़ते हुए फोखर लाल माली फौजू माली नाथू लाल माली को बाए लेकर यहा से ग्यारसी लाल व बाबू लाल/ जन्सीलाल को बाये लेकर चैथमल बागरी जगदीश बजरंगलाल माली को दाये छोड़ते हुए मंगलचन्द/बनवारी, रामेश्वर जगन्नाथ, सत्यनारायण/बिरधीलाल की साईंड को बाये शामिल करते हुए गली से
	वाली साईंड को बाये लेते हुए हीरालाल सुनार साईं जी की तकिया छोटू लाल सुनार मंगल चन्द अध्यापक वाली साईंड को दाये छोड़ते हुए नन्द किशोर अध्यापक के मकान पर आकर समाप्त होगा।
4 (चार)	सराय के गणेश मन्दिर से प्रारम्भ होकर बाये साईंड के मकानों को बाये लेकर नन्द किशोर अध्यापक चेतराम सैनी, पन्नालाल हीरालाल खाती, रामजीवन बैरागी को दाये छोड़ते हुए जुगल किशोर सैनी, हरिनारायण कटारा चिन्तामणी व रा.उ.मा.वि., रामेश्वर शर्मा के मकानों वाली साइंड को बाये शामिल करते हुए प्रेम चन्द पंचोली आदि को बाए शामिल करते हुए राम मोहल्ला दरवाजे में घुसकर बाबूलाल बट्टीलाल पन्नालाल को बाए लेकर मोती लाल, गजानन्द, हिम्मतराम सैनी व चरणदास बालाजी को दाये छोड़ते हुए रामकल्याण, रामकुवार, श्यामलाल, रामनारायण प्रेमशंकर, मल्लू, छोटूलाल, गुलाबचन्द, सत्यनारायण बिरधीलाल को बाये लेकर गली में घुसकर हनुमान, श्रवणलाल, सत्यनारायण, शम्भू, प्रहलाद, धनराज, गोपाल, जगन्नाथ, बनवारी, मंगलचन्द, छीतरलाल को दायें छोड़ते हुए भूरा, रामनाथ माली व गणेश मन्दिर को बाए लेते हुए यहा से बायी ओर मुड़कर बाबूलाल/जन्सी व ग्यारसीराम, भवरलाल, प्रभु लाल, बिशना व पोखर माली के मकानों वाली साइंड को दाए छोड़ते हुए कैलाश कुम्हार, भंवर लाल पटवारी के मकानों वाली साइंड को बाए लेते हुए गणेशपुरा दरवाजे से बाहर निकलकर सब्जीमण्डीको बाये शामिल करते हुए सीताराम आरा मशीन धन्ना श्रीराम माली के मकान को बाये लेकर नाथू लाल माली के मकानों वाली साईंड को दाये छोड़ते हुए सुरेश किराना स्टोर गुलाब चन्द सैनी को बाये लेते हुए मांगी लाल सैनी भीमराज सैनी शिव मन्दिर को दाये छोड़ते हुए सराय गणेश जी के दरवाजे में घुसकर सराय गणेश मन्दिर पर आकर समाप्त होगा।
5 (पांच)	माताजी के मन्दिर से प्रारम्भ होकर रमेश मटाकी राजमल जैन को बाये शामिल करते हुए छात्रावास को दाये छोड़ते हुए भूत के खाल के सहरे सहारे तेजमल/धन्नालाल गुजर, गगांराम चतरा को बाये लेकर महावीर नगर योजना को दाये छाड़ते हुए भीमराज उकार माली मड़ू गुजर, बनवारी/ रामकल्याण माली को बाए शामिल करते हुए देवचन्द माली के कुए को दाये छोड़ते हुए भूत के खाल के सहरे सहारे मीठा कुआ नाथू लाल का कुआ, चैथमल का कुआ खारी बावडी को बाये लेकर हरि प्रसाद शर्मा गिरधारी माली के कुए को दाये छोड़ते हुए शिवजी लाल माली के कुए को बाये लेकर खारी बावडी के दरवाजे में होकर रोड पर आकर सीताराम आरा मशीन सब्जीमण्डी सैनी पब्लिक स्कूल को दाये छोड़ते हुए गणेशपुरा दरवाजे में घुसकर हेमराज बजरंग लाल राठोर भगवत नन्द लाल माली को बाए लेकर भवर लाल पटवारी राधेश्याम कैलाश बाई कुम्हार गणेश मन्दिर को दाये छोड़ते हुए फोखर लाल माली फौजू माली नाथू लाल माली को बाए लेकर यहा से ग्यारसी लाल व बाबू लाल/ जन्सीलाल को बाये लेकर चैथमल बागरी जगदीश बजरंगलाल माली को दाये छोड़ते हुए मंगलचन्द/बनवारी, रामेश्वर जगन्नाथ, सत्यनारायण/बिरधीलाल की साईंड को बाये शामिल करते हुए गली से

	बाहर आकर चरणदास बालाजी को छोड़ते हुए छोटू लाल गुलाबचन्द माली शंकर लाल कटारा को दाये छोड़ते हुए हनुमान /श्रवणलाल माली, रामस्वरूप मीणा कैलाशचन्द/ मांगीलाल को बाये लकर रामप्रसाद/ जगन्नाथ व हेण्डपम्प गजानन्द को दाये छोड़ते हुए श्याम लाल/ मोडू लालको बाये लकर सत्यनारायण/बजरंगलाल गजानन्द व मोडू लाल / नेनकराम माली को दाये छोड़ते हुए सूरजमल रामगोपाल माली को बाये लेकर ग्यारसीराम/ कल्याण को बाये लेकर यहा से गली में घुसकर द्वारका लालसैनी गोपाल/छीतर, जगन्नाथ/नारायण को दाये छोड़ते हुए प्रभु लाल/बिशना गुलाबचन्दजगन्नाथ, चेतराम/जगन्नाथ को बाये लेकर रोड क्रोस कर रोड रोड माताजी मन्दिर की और चलते हुए कल्याण सैनी पांचूलाल अजमेरा रामधन/ तुलसीराम को बाये लेकर द्वारका सैनी कजोड़ तेली रामनाथ नायक की दायी साईड को दाये छोड़ते हुए गोपाल मीणा कुआ वाले को बाये लेकर माताजी मन्दिर पर आकर समाप्त होगा।
6 (छः)	चरणदास बालाजी से प्रारम्भ होकर गोपाल माली बाबू लाल, बट्टीलाल/पन्ना लाल को दाये छोड़ते हुए मोती लाल गजानन्द हिम्मत राम सैनी को बाये लेकर यहां से रेल्वे लाईन पर चढ़कर लाईन लाईन पुराने क्वारी आफिस को बाये लेकर यहां से मेगजीन की क्वाटरों व सुखराम की बावडी को दाये छोड़ते हुए धनराज/श्योजीलाल व मुकेश/अर्जुन लाल को दाये छोड़ते हुए आदर्श विधा मन्दिर विद्यालय को बाये लेर बाड़ी के बालाजी भाट की बावडी को दाये छोड़ते हुए मोहन लाल/ कल्याण माली लालचन्द बागरी कारीगर प्रभु लाल सेनी , परमानन्द सैनी के गैरेज को बाये लेकर परमानन्द सैनी के मकान बाबू लाल तमोली को दाये छोड़ते हुए गोपाल/मांगीलाल माली कल्याण माली के बाडे रामनाथ नायक, राकेश सैनी अध्यक्ष की साईड को बाये लेकर दिनेश/बजरंग लाल, मोहन/गोबरी लाल व जगन्नाथ/ नारायण को बाये लेकर गली में घुसकर गोपालछीतर को बाये लेकर ग्यारसीराम/कल्याण व सूरजमल/गोपाल को दाये छोड़ते हुए द्वारका लाल सैनी, जुगल/मांगीलाल को बाये लेकर यहां से गली में घुसकर सत्यनारायण बजरंगलाल, प्रेमशंकर/मल्लू हेण्डपम्प रामप्रसाद जगन्नाथ को बाये लेकर श्याम लाल/मोडू लाल, भैरूलाल/रघनाथ रामस्वरूप मीणा हनुमान, छोटू लाल / गुलाबचन्द को दाये छोड़ते हुए शंकर लाल/ हरिप्रसाद कटारा को बाये लेकर चरणदास बालाजी पर आकर समाप्त होगा।
7 (सात)	जन स्वास्थ्य अभियानिक कार्यालय से प्रारम्भ होकर छात्रावास को बाये लेते हुए रोड पर चलते हुए महावीर नगर योजना व माताजी के मन्दिर वाली साईड व गोपाल/ मांगीलाल माली की दायी साईड व परमानन्द के गैरेज की साईड को बाये छोड़ते हुए हनुमान टांक ओम प्रकाश शर्मा बाबू लाल चायवाले को बाये लेकर यहां से बावडी के बालाजी रोड पर चलते हुए गोपाल जी बाबू का कुआ वाले लाल चन्द बागरी, मोहनलाल/कल्याण माली वाले मकानों को दाये छोड़ते हुए परमानन्द सैनी के आवासीय मकान व भाट की बावडी बावडी के बालाजी को बाये लेकर आदर्श विद्या मन्दिर भवन को दाये छोड़ते हुए रोड रोड चलकर धनराज / श्योजी

	लाल माली मुकेश/अर्जुन लाल माली को बाये लेकर सुखराम की बावडी को बाये लेते हुए यहां से सीधा रेल्वे लाईन पर पहुंचेगा यहां से भोमिया की बाउण्डी तक यहां से वापस नीचे उतरकर नाले को पारकर विवेकाननद नगर को दाये छोड़ते हुए बारूद खाना की क्वाटरों को बाये लेकर खेतों में होकर किशन / जन्सी के खेत में होकर किशन जन्सी के मकान व बाबू लाल / चतरा माली को बाये लकर सत्यनारायण प्रभु लाल माली व लोकेश माली को दाये छोड़ते हुए कच्चे रास्ते पर चलते हुए रामकल्याण / मांगीलाल, घन्नालाल गौरु लाल को बाये लेकर राम निवास/ गोगा बैरवा भैरुलाल प्रजापत को दोय छोड़ते हुए पप्पू लाल / रामकल्याण, गोकुल/ भूरा को दाये छोड़ते हुए राजेश बिरधी लाल गुजर भैरी पत्नी प्रहलाद जटा शंकर/ लटूर लाल माली को बाये लेकर चन्दा लाल/ रतन लाल माली को दाये छोड़ते हुए हरिराम/ माधो, प्रहलाद/ भंवर लाल गुजर को बाये लेते हुए मांगीलाल / कालू बागरी को बाये लेकर कान्हा/ धासी लाल माली को बाये लेकर इस्लाम मोहम्मद को दाये छोड़ते हुए रोड रोड चलकर हेमराज सैनी, बाबू लाल नाई को दाये छोड़ते हुए सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक कार्यालय पर आकर समाप्त होगा।
8 (आठ)	इस्लाम मो०/मो० मुस्तकीम से प्रारम्भ होकर यहां से बायी ओर घुमकर कान्हा/धासी लाल माली को बाए लेकर मांगीलाल/ कालू बागरी को दाये छोड़ते हुए तुलसीराम/नन्दलाल गुजर को बाये लेकर हरिराम/माधो माली प्रहलाद भंवरलालगुजर को दाये छोड़ते हुए चन्दलाल/ततनलाल माली को बाये लेते हुए जटाशंकर/लटूर लाल माली, राजेश/ बिरधी लाल गुजर, भैरी / प्रहलाद को दाये छोड़ते हुए हजारी लाल को बाये लेकर रोड पर चलकर गोकुल/ भूरालाल बाये लेकर भैरुलाल प्रजापत ढीपरी वाले पप्पू लाल/रामकल्याण,रामनिवास/गोगा बैरवा को बाये लेकर घन्नालाल/ गौरुलाल, रामकल्याण/मांगीलाल को दाये छोड़ते हुए कच्चे रास्ते पर चलते हुए सत्यनारायण/प्रभु लाल माली लाकेश माली बाबू लाल चतरा माली किशन लाल जन्सी माली के मकान को दाये छोड़ते हुए कच्चे रास्ते पर आते हुए नवीन प्राथमिक विद्यालय के भवन व विवेकानन्द नगर योजना को दाये छोड़ते हुए छोटू लाल/गणेश कमलेश, बदरी लाल, हेण्ड पम्प सामुदायिक शौचालय को बाये लेकर देवीलाल गोमदा, दुर्गाशंकर कजोड को दाये छोड़ते हुए भंवर लाल डालू लाल पांचूलाल माली शंकर लाल गणेश राम माली को बाये शामिल करते हुए सुरेश देवीलाल बैरवा, सीताराम रामदत्त तेली अजीम शहाबुदीन, अली मो० साबुदीन को दाये छोड़ते हुए सूरजमल गोमदा बैरवा नरेन्द्र कुमार सक्सेना के प्लाट वाली साईड को बाये शामिल करते हुए रोड पर आकर पी.एच.ई.डी. कार्यालय के रास्ते की ओर चलते हुए बायी साईड के मकानों को बाये शामिल करते हुए इस्लाम मो०/ मो० मुस्तकीम के मकान पर आकर समाप्त
9 (नौ)	स्वास्थ्यिक गैस एजेन्सी से प्रारम्भ होकर बायी तरफ मूँढ़कर हेण्ड पम्प एवं नरेन्द्र कुमार सक्सेना के प्लाट सूरजमल गोमदा बैरवा को दाये छोड़ते हुए अली मोहम्मद/ शाबुदीन, अजीम/शाबुदीन सुरेश/ देवी लाल बैरवा सीताराम/रामनारायण

	<p>तेली को बाये लेकर शंकर लाल/गणेश राम माली, काल्पलाल/पांचू लाल माली, भंवर लाल/डालू लाल रेगर को दाये छोड़ते हुए देवी लाल गोमदा बैरवा दुर्गाशंकर / कजोड़ लाल को बाये लेकर मोहन/भैरुलाल रेगर सामुदायिक शौचालय हेण्ड पम्प कमलेश/बदरी लाल एवं छोटू लाल/ गणेश को दाये छोड़ते हुए बृजमोहन /गोविन्द रेगर को बाये लेकर सीधे भोमिया जी तक यहां से भोमिया जी को दाये छोड़ते हुए प्रवीण रतीराम मीणा, आई.टी.आई. को बाये लेकर रोड क्रोस कर बेणीमाधव/रामकिशन पुरोहित के खेत को दाये छोड़ते हुए यहां से खेतों के रास्ते होकर छोटे बन्धे तक यहा से छोटे बन्धे व बड़े बन्धे के बीच रास्ते में होकर बून्दी सड़क पर पहुंचेगा यहा सं गुरुशरण सिंह साहनी के खेत को दाये छोड़ते हुए बीएसएनएल के भूखण्ड व चूना भट्टा व भैरु लाल माली श्याम सुन्दर अरोड़ा के खेत को दाये को छोड़ते हुए कच्चे रास्ते पर होकर शिवराम माली के खेत को पेट्रोल पम्प को बाये शामिल करते हुए महावीर नगर विस्तार योजना को बाये शामिल करते हुए पी.एच.ई.डी. कार्यालय व कृपाशंकर सोनी के मकान वाली साईड को दाये छोड़ते हुए बाबूलाल नाई हेमराज सेनी के मकानों वाली साईड को बाये शामिल करते हुए रोड रोड चल कर स्वास्तिक गैस एजेन्सी पर आकर समाप्त</p>
10 (दस)	<p>सुखाडिया पार्क से प्रारम्भ होकर रोड पर शंकरपुरा की ओर चलते हुए गोबरी लाल मीणा अध्यापक, लक्ष्मण सिंह हाड़ा के सामुदायिक भवन व राधा किशन सैनी को दाये छोड़ते हुए गुलाब चन्द्र /दोजी राम अध्यापक को बाये लेते हुए रोड पर चलते हुए राजाराम गोचर / रामकुमार गोचर को दाये दोड़ते हुए राम प्रसाद मीणा/लक्ष्मीनारायण मीणा कम्पाउण्डर सूरजमल/गंगाराम बदरीलाल नाथू लाल बैरवा को बाये शामिल करते हुए चन्द्र प्रकाश/ श्री किशन बैरवा व हेण्ड पम्प को मुकुट बिहारी राधेश्याम को दाये छोड़ते हुए मोड़ लाल मोतीलाल गुजर को बाये लेकर कन्हैया लाल/दयाचन्द्र रेगर को दाये छोड़ते हुए सत्यनारायण/किशन लाल रेगर को बाये लेकर रोड पर चलते हुए रामलाल / मोड़ लाल रेगर को दाये छोड़ते हुए गंगाराम/बजरंगलाल माली भंवर लाल, भैरु लाल लट्टू लाल/ भवाना रेगर को बाये शामिल करते हुए चतरा लाल/भूरालालरेगर हनुमान/धुला दुर्गलाल/रामलाल रेगर को दाये छोड़ते हुए पांचू लाल /छोटू रघुरसीराम माली, गोपाल माली के खेत को दाये दजेड़ते हुए शंकरपुरा बस्ती को बाये शामिल करते हुए गोबरी लाल माली टोड़ा वाले काली बाई माली पण्डितानी के कुए व महिपत सिंह के खेत को बाये लेते हुए गणेश पुरा बस्ती व महावीर नगर योजना को दाये छोड़ते हुए छात्रावास व पी.एच.ई.डी. कार्यालय व गणेश नगर विस्तार योजना एवं शिवराम माली के खेत एवं पेट्रोल पम्प सुभाष नगर बस्ती को दाये छोड़ते हुए नीचे वाले कच्चे रास्ते पर चलते हुए श्याम सुन्दर अरोड़ा भैरु लाल माली चूना भटा व दूरसंचार विभाग के भूखण्ड को बाये लेकर मुख्य सड़क को क्रोस करते हुए छोटे बन्धे के कच्चे रास्ते पर चलते हुए गुरु शरण सिंह साहनी व टोड़ा वाले के बन्धे को दाये छोड़ते हुए बड़े बन्धे को बाये शामिल करते हुए झोपडिया जाने वाले रास्ते तक यहां से सुखाडिया पार्क की ओर चलते हुए भंवर लाल/ कल्याण राधाकिशन /</p>

	रामदेव माली भंवर लाल उकार के कुए को दाये छोड़ते हुए कच्चे रास्ते के सहारे सहारे डा. गणेश के कुए को दाये छोड़ते हुए सुखाड़िया पार्क पर आकर समाप्त होगा।
11 (न्यारह)	लाल पुलिया बस्ती के नाले के पास हनुमान मन्दिर से प्रारम्भ होकर अजीत जोशी को बाये शामिल करते हुए रामधन चैराहा की ओर चलते हुए समस्त शिव नगर कॉलोनी, मांगीलाल कोली के खेत में बनी समस्त कॉलोनी का बाये शामिल करते हुए अमर लाल कलाल को बाये लेकर चैराहा पर बाये धूमते हुए राधेश्याम हीरालाल व चतर सिंह को बाये लेकर केशव क्रय विक्रय सोसायटी मूल सिंह डिग्री कॉलेज व चैथमल नागर नये मकान को बाये शामिल करते हुए नाले से रोड क्रॉस कर हरिप्रसाद / हीरालाल सोनी के मकान व गायत्री होटल को दाये छोड़ते हुए भंवर लालमाली के खेत के कोने व नाले के सहारे बने मकसूद के मकान को बाये लेकर भंवर लाल माली के खेत को बाये लेकर नाले के सहारे सहारे शंकरपुरा बस्ती की ओर नाले के सहारे सहारे चलते हुए लक्ष्मी विहार कॉलोनी को दाये छोड़ते हुए राधेश्याम / धन्ना लाल मीणा के मकान को बाये लेकर राजेन्द्र प्रसाद रामदेव रेगर को बाये लेकर मकान के पीछे वाले रोड पर आकर दुर्गलाल/रामलाल रेगर को बाये लेकर दुर्गलाल रामलाल रेगर, हनुमान/धूला, चतरा लाल/ भूरा रेगर को बाये लेकर लट्टरलाल/ भवाना, भंवर लाल/ भौरुलाल गंगाराम/ बजरंगलाल माली को दाये छोड़ते हुए रामलाल मोड़ लाल रेगर / कन्हैयालाल/दयाचन्द मुकुट बिहारी/ राधेश्याम को बाये लेकर सत्यनारायण /किशन लाल रेगर, मोड़ लाल/मोती लाल गुजर सूरजमल / गंगाराम बदरीलाल/ नाथू लाल बैरवा को दाये छोड़ते हुए हैण्ड पम्प के पास से धूमकर चन्द्र प्रकाश/ श्री किशन, राजाराम गोचर/रामकुमार, राधा किशन सैनी को बाये लेकर रामप्रसाद /लक्ष्मीनारायण मीणा व गुलाब चन्द दोजीराम अद्यापक को दाये छोड़ते हुए रोड पर आकर राधा किशन सैनी के बाये लेकर लक्ष्मण सिंह हाड़ा के सामुदायिक भवन को बाये लेकर सुखाड़िया पार्क को दाये छोड़ते हुए गोबरी लाल मीणा के मकान को बाये लेकर शमसान को व गणेश कम्पाउण्डर के मकान व खेत को बाये लेकर बजरंगपुरा नाले के सहारे सहारे चलकर सम्पूर्ण बजरंगपुरा बस्ती को दाये छोड़ते हुए रोड पर हनुमान मन्दिर पर आकर समाप्त होगा।
12 (बारह)	सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग लाखेरी के कार्यालय से प्रारम्भ होकर लाखेरी की ओर रोड पर चलते हुए सम्पूर्ण हाथीदुम्बा बस्ती को बायें लेते हुए मूलचन्द शर्मा व डा० शम्भू व नजर मोहम्मद के कुए को दाये छोड़ते हुए रोडरोड चलकर हाईवे को क्रोस कर पट्टी के स्टाक को बाये लेकर धनपाल बैरवा अद्यापक बजाज शौरम व सोरभ आई.टी.आई. को बाये लेकर बजरंगपुरा बस्ती को बाये शामिल करते हुए लाल पुलिया तक यहां से नाले के सहारे सहारे शंकरपुरा की ओर चलते हुए शमसान घाट को दाये छोड़ते हुए सुखाड़िया पार्क को दाये छोड़ते हुए गणेश कलीनिक के मकान व खेत भंवर लाल माली, बाबू लाल/ शंकर व रमेश ईट भट्टा वाले के कुए को बायें शामिल करते हुए हैमराज /

	राधाकिशन फकीर मो10 के हुए व जिक जेक डेम को दाये छोड़ते रमेश महा वाले के कुए के पास से भारत पेट्रोलियम की और चलते हुए पेट्रोल पम्प की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते से होकर गणेश विहार, श्याम विहार, पंचशील एनक्लेव को बाये शामिल कर पेट्रोल पम्प को पीछे से बाये लेकर भैरू सिंह,/ राजेन्द्र सिंह राजपूत के मकान को बाये लेकर यहां से हाईवे को क्रोस कर हाउसिंग बोर्ड कालोनी के पावर हाउस को दाये छोड़ते हुए रोड रोड चलकर स्टेशन रोड पर यहां से रतनलाल बैरवा के खेत को बो शामिल करते हुए कृषि उपज मण्डी को दाये छोड़ते हुए सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग लाखेरी के कार्यालय पर आकर समाप्त होगा।
13 (तेरह)	रेल्वे स्टेशन रोड पर हाईवे के तिराहे पर महेन्द्र बैरवा के मकान से प्रारम्भ होकर को बाये शामिल करते हुए बजरंग लाल खटीक, पीरुलाल व मांगीलनाल बैरवा के मकानों वाली बाई साईड को बाये शामिल करते हुए स्टेशन की ओर चलते हुए रेल्वे के कर्षण आफिस चूना भट्टे व टाल की टापरियां को दाये छोड़ते हुए रोड रोड चलकर मोहन लाल त्रिपाटी व बद्रीलाल पंडित गोबरी लाल गोचर लक्ष्मण सिंह हाड़ा की बाई साईड को बाये शामिल करते हुए बाबू लाल/ नाथू लाल खटीक नेहरू चिल्ड्रन स्कूल कृषि उपज मण्डी की साईड को दाये छोड़ते हुए लक्ष्मीचन्द्र कलान के खेत को बाये लेकर हाउसिंग बोर्ड कालोनी को जाने वाले रास्ते पर चलते हुए हाउसिंग बोर्ड कालोनी को दाये छोड़ते हुए पानी की टंकी व पावर हाउस को बाये लेकर हाईवे पर आकर हाईवे के सहारे सहारे चलते हुए शिव मन्दिर तक यहां से शमसान को अन्दर लेते हुए हाईवे तक यहां से वापस आते हुए मांगीलाल लुहार लोकेश कुमार वैष्णव शिव शंकर कटारा बंशी लाल बैरवा के मकानों को बाये शामिल करते हुए स्टेशन रोड पर चलकर महेन्द्र बैरवा के मकान पर आकर समाप्त होगा।
14 (चैदह)	कृषि उपज मण्डी से प्रारम्भ होकर स्टेशन की ओर रोड पर चलते हुए नेहरू चिल्ड्रन स्कूल बाबू लाल / नाथू लाल खटीक उदय सिंह चैराहा को बाये लेकर लक्ष्मण सिंह हाउस, गोपी लाल गोचर प0 बद्रीलाल सुरेन्द्र कुमार शर्मा वाली साईड को दाये छोड़ते हुए चूना भट्टा व भट्टे की टापरियाँ को बाये शामिल करते हुए कर्षण फोरमेन कार्यालय को बाये लेकर चतरा बैरवा व महेन्द्र बैरवा को दाये छोड़ते हुए रोड रोड चलकर हाईवे पर नाले तक यहां पर जुगल किशोर/लक्ष्मीनारायण बैरवा को बाये शामिल कर शेष सम्पूर्ण बस्ती व स्कूल को दाये छोड़ते हुए लबान होम सिंगल पर पहुंचेगा यहां से लाईन क्रोस कर वापस स्टेन की ओर आते हुए बारामासी क्वाटर व प्रधान गाड़ी परीक्षक कार्यालय को बाये शामिल करते हुए सम्पूर्ण रेल्वे कालोनी व रेल्वे स्टेशन को बाये शामिल करते हुए रेल्वे पथ निरीक्षक कार्यालय को बाये लेकर रोड के सहारे सहारे रेल्वे लाईन तक यहां से लाईन के सहारे सहारे चलते हुए बालापुरा रेल्वे फाटक तक यहां से फाटक को पार करते हुए लाखेरी के रास्ते पर आकर मूलचन्द्र शर्मा के कुए को दाये छोड़ते हुए स्टेशन रोड पर आकर कृषि उपज मण्डी की तरफ चलते

	हुए जगन्नाथ बैरवा को बाये शामिल करते हुए कृषि उपज मण्डी पर आकर समाप्त होगा।
15 (पन्द्रह)	डी.ए.वी. स्कूल जिन्द की बावड़ी से प्रारम्भ होकर रोड रोड चलते हुए सम्पूर्ण बायी साईंड की क्वाटरों को बाये शामिल करते हुए जीमखाना क्लब के सहारे की सम्पूर्ण क्वाटरों को बाये लेकर रोड रोड एल टाईप क्वाटरों को शामिल करते हुए शिव मन्दिर की तरफ की क्वाटरों को दाये छोड़ते हुए प्रदीप सोनी व बूस्टर पम्प को बाये लेकर शर्मा स्टोर यूनियन भवन को दाये छोड़ते हुए सब्जीमण्डी रोड पर आकर सब्जीमण्डी आई.सी.आई.सी.आई. बैक को दाये छोड़ते हुए रामधन चैराहा की और शिव नगर बजरंगपुरा बस्ती को दाये छोड़ते हुए नजर मो० के कुए को बाये लेकर हाईवे क्रास कर डा० शम्भू के कुए मूलचन्द शर्मा के कुए को बाये लेकर पी.डब्ल्यू डी. कार्यालय को व हाथीदुम्बा बस्ती को दाये छोड़ते हुए बालापुरा रोड पर चलते हुए ए.सी.सी. रेल्वे लाईन क्रोसिंग तक यहां से रेल्वे लाईन के सहारे सहारे सण्डाल के बालाजी के नाले तक यहां से रोड पर आकर रोड रोड चलते हुए हाईवे क्रांस कर रविकान्त शर्मा के मकान व डी.ए.वी. स्कूल को बाये लेकर जिन्द की बावड़ी पर आकर समाप्त होगा।
16 (सोलह)	बैक आँफ बडोदा से प्रारम्भ होकर शिव मंदिर को बाये शामिल करते हुए मोड़ लाल पारेता अशोक राजावत रागोपाल मीणा पूर्व संरपंच को बाये शामिल करते हुए हरिश्चन्द जोशी की मेड पर चढ़ते हुए लड्डू लाल माली के खेत को बाये शामिल करते हुए हरिश्चन्द जोशी के खेत को दाये छोड़ते हुए पीरुलाल मेहर के खेत में बनी सम्पूर्ण कालोनी को दाये छोड़ते हुए इदिया खां जी के खेत को दाये छोड़ते हुए रमेश खाती व कजोड़ माली के खेत को बाये शामिल करते हुए जगदीश/ हनुमान के खेत व साकेत कालोनी को बाये शामिल करते हुए नाले के अन्दर लेते हुए ग्यारसी लाल व रामफूल धन्ना लाल के खेत को दाये छोड़ते हुए नाले के अन्दर बने मकानों को बाये शामिल करते हुए राधेश्याम / धन्ना लाल मीणा के मकान को बाये लेकर व जगदीश हरिजन व सम्पूर्ण लक्ष्मीविहार कालोनी को बाये शामिल करते हुए नाले पर चढ़ कर भंवर लाल माली के खेत को दाये छोड़ते हुए मकसूद के मकान को दाये छोड़ते हुए बून्दी रोड मुख्य सड़क पर आकर हरिप्रसाद सोनी गायत्री होटल चान्दमल जैन शिवनारायण कम्पाउण्डर की बायी बस्ती को बाये लेकर मूल सिंह डिग्री काँलेज केशव क्रय विक्रय सोसाईटी को दाये छोड़ते हुए रामधन चैराहे की बस्ती को बाये लेकर बाटम बाजार की ओर चलते हुए साकेत कालोनी आई.सी.आई.सी. बैक को बाये शामिल करते हुए सब्जीमण्डी को दाये छोड़ते हुए बाटम लेवल के मेन रोड चलते हुए बैक आँफ बडोदा पर आकर समाप्त होगा।
17 (सत्रह)	चुंगीनाका नं० १ से प्रारम्भ होकर पशु चिकित्सालय को बाये लेकर राजेन्द्र पटवारी को बाये लेकर डा. रामनिवास मीणा को बाये लेकर रोड पर चलते हुए डा. मांगीलाल को दाये छोड़ते हुए एसीसी नाले तक यहां से आलमदीन के मकान को बाये लेते हुए राजेश बाई राठोर को दाये छोड़ते हुए नाले व गोपाल पटवारी जी के

	खेत के सहारे चलते चलते हुए सम्पूर्ण बस्ती को दाये छोड़ते हुए इंदिया खां जी के खेत को दाये छोड़ते हुए पीरुलाल के खेत पर बनी सम्पूर्ण बस्ती व हरिशचन्द्र जी जोशी के खेत पर बनी सम्पूर्ण बस्ती को बाये शामिल करते हुए रमेश खाती व कजोड़ के खेत को दाये छोड़ते हुए लड्डू लाल माली के खेत को दाये छोड़ते हुए मेड के सहारे सहारे चलते हुए हरिशचन्द्र जोशी के खेत की बाउण्डी के सहारे सहारे चलते हुए गोपाल जीमीणा सरपंच के मकान तक यहां से गोपाल जी सरपंच व मोडू लाल पारेता व शिव मन्दिर को दाये छोड़ते हुए दिनेश डालचन्द व रामप्रसाद माली के मकान वाली साईड व साजिद इलेक्ट्रीकल की दुकान को बाये शामिल करते हुए घासीलाल जी अध्यापक हरिशचन्द्र जोशी के खेत की कालोनी कपूरचन्द जी सोनी टाकिज वाली बस्ती को शामिल करते हुए रोड पर चलते हुए व घनश्याम जी ब्राह्मण खवाजू भाई के मकान वाली साईड को बाये लेकर चुंगीनाका नं० १ पर समाप्त होगा।
18 (अठारह)	गांधी पार्क से प्रारम्भ होकर पार्क वाली साईड को बाये शामिल करते हुए कपूरचन्द जैन मस्जिद लटूरलाल/बजरंगी लाल देवकीनन्दन शर्मा खेमचन्द सिन्धी व सीताराम गोटे वाले के मकान को बाये लेकर राधेश्याम शर्मा पूर्व अध्यक्ष व महुआ की टापरियों को दाये छोड़ते हुए यहां से रोड क्रोस करते हुए गोपाल व मांगी लाल की गली में घुसकर शंकर लाल व मांगी लाल के मकान को दाये छोड़ते हुए व बिरधी लाल पटेल सीताराम माली के खेत में होकर सीताराम के मकान को दाये छोड़ते हुए रामलाल हजारी लाल व गोपाल पटवारी के कुए को बाए लेकर इंदिया खां के कुए पर बाये शामिल करते हुए यहा से (डई) आबिद के खेत के पीछे होते हुए नाले के सहारे सहारे चलते हुए राजेश बाई राठोर के मकान को बाये शामिल करते हुए आलमदीन के मकान को दाये छोड़ते हुए गफूर जी अध्यापक व मनमोहन प्रिटिंग प्रेस वाली साईड को दाये छोड़ते हुए ब्लू बर्ड पब्लिक स्कूल वाली रोड की बायी साईड को बाये लेते हुए गांधी पार्क पर आकर समाप्त होगा।
19 (उन्नीस)	उपखण्ड कार्यालय के पास इन्दिरा गांधी की मूर्ति से प्रारम्भ होकर जैन के खाती प्लाट व गेन्द बिहारी को बाये लकर रोड पर चलते हुए बजरंग लाल पुरोहित नगर पालिका कार्यालय को दाये छोड़ते हुए मोती लाल जैन बाबू लाल सेदावत के कानों वाली साईड व श्याम सुन्दर अरोडा कपड़े की दुकान को बाये शामिल करते हुए विजय द्वार में होकर हजारी लाल जैन को बाये लेकर प्रकाश होटल वाले की दुकान को बाये लेकर गोबरी लाल पंचोली को दाये छोड़ते हुए श्रवण लाल व चन्द्र प्रकाश राठोड व पुराने थाने को दाये छोड़ते हुए चैथमल अध्यापक मोह० अमीन पठान को बाये लेकर छीतरलाल हलवाई को दाये छोड़ते हुए हटीलाल हनुमान मन्दिर को बाये लेकर मंगलचन्द अध्यापक के होने वाले मकान व नगर पालिका शौचालय को छाये छोड़ते हुए रेल्वे लाईन व नाले के सहारे सहारे चलते हुए सम्पूर्ण नाली बस्ती को दाये छोड़ते हुए खारी बावडी नाले तक यहां से खारी बावडी की और चलते हुए गिरधारी माली हरिप्रसाद शर्मा अध्यापक व गोपाल

	<p>माली के कुए को बाए लेकर नाले के सहारे सहारे सीताराम बिरधी लाल के खेत तक यहां से खेत के रास्ते चलते हुए पटेल बिरधी लाल के खेत में होकर यहां बने मकानों का बाये लेकर मांगीलाल सैनी के बाडे में बनें मकान व गोपाल माली के मकान की साईंड को दाये छोड़ते हुए मांगीलाल सैनी को बाये लेकर राधेश्याम गोटेवाला खेमचन्द्र सिंधी की साईंड को दाये छोड़ते हुए राधेश्याम चैयरमैन श्रवणलाल बैरवा व 30 मलिक व इस्माईल के मकान तक यहां से गली में घुसकर शमसुदीन मास्टर के मकान वाली साईंड को दाये छोड़ते हुए जमील मो। शब्बीर भाई को बाये लेकर गली में चलते हुए रसीद सरदार राजेश महावर अध्यापक को दाये छोड़ते हुए गली में चलते हुए राजेन्द्र महावर को बाये लेकर वापस लाखेरी रोड पर चलते हुए हेण्डपम्प 30 जब्बार झग्गाहीम गांधी दुर्गालाल सैनी परमेश्वर त्यागी व अब्दुल सलाम को बाये लकर 30 वहीद अध्यापक केशरी लाल महावर व 30 गफूर बक्शा वाले को दाये छोड़ते हुए अग्रवाल धर्मशाला सक्सेना की गली को बाए लेकर रोड रोड नाथू लाल तिवाडी के खेत व मकान रा०३०मा० वि० लाखेरी बस स्टेंड को बाये छोड़ते हुए बसन्ती लाल गुजर चांदमल जैन नेमीचन्द्र बी काम के कुए को बाये लेकर उपखण्ड कार्यालय को बाये लेकर कमला बाई कटला व बजरंग लाल पुरोहित की साईंड को दाये छोड़ते हुए इन्दिरागांधी की मूर्ति पर आकर समाप्त होगा।</p>
20 (बीस)	<p>राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मुख्य द्वारा से प्रारम्भ होकर घोबियों की बावडी नाथू लाल जी तिवाडी में खेत को बाये लेकर चांदमल जैन की साईंड को दाये छोड़ते हुए जैन धर्मशाला तक यहा से रोड क्रोस कर आर्थर रोड पर चलते हुए 30 गफूर बक्शा वाले 30 वहीद अध्यापक केसरी लाल कोली की साईंड को बाये लेकर 30 सलाम/परमेश्वर शरण त्यागी दुर्गालाल सैनी झग्गाहीम गांधी के मकान व 30 जब्बार के मकान वाली साईंड को दाये छोड़ते हुए राजेन्द्र महावर व हेण्डपम्प को दाये छोड़ते गुड्डू के मकान को बाये लेकर गली में चलकर राकेश महावर अध्यापक जमील मुहम्मद व रसीद / सरदार खां को बाये लेते हुए शमसुदीन अध्यापक के मकान तक यहां से पार्क की और चलते हुए इनायत अली बिलायत अली की साईंड को बाये लेते हुए मस्जिद व गांधी पार्क व ब्लू बर्ड स्कूल की साईंड को दाये छोड़ते हुए मनमोहन प्रिन्टिंग प्रेस वाली साईंड को बाये लेते हुए नाले के पस 30 गफूर अध्यापक के मान तक नाले के सहारे ए.सी.सी. बाउण्डी वाल के के अहाते के सहारे सहारे सम्पूर्ण गांधीपुरा बस्ती को बाये शामिल करते हुए नाना देवी माताजी शंकर बन मठ अशोक दुबे शमसान घाट कनिष्ठ अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक कार्यालय को बाये लेकर तालाब को दाये छोड़ते हुए स्कूल की बाउण्डी वाले के सहारे सहारे चलते हुए रा० ३० मा० वि० लाखेरी को बाये शामिल करते हुए मुख्य गेट पर आकर समाप्त होगा।</p>
21 (इक्कीस)	<p>ए.सी.सी. यूनियन हाउस से प्रारम्भ होकर शर्मा स्टोर को बाये लेकर ए.सी.सी. बुस्टर पम्प व प्रदीप सोनी की क्वाटर वाली दायी साईंड को दाये छोड़ते हुए शिव मन्दिर की साईंड को बाये लेते हुए जीमखाना क्लब की साईंड की क्वाटरों को</p>

	<p>दाये छोड़ते हुए जी. टाईप क्वाटरों को बाये लेते हुए रोड रोड चलकर जिन्द की बावड़ी व डी.ए.वी. स्कूल को व रविकान्त शर्मा के मकान को दाये छोड़ते हुए हाईवे क्रास कर सण्डाल के बालाजी के नाले तक यहां से लाईन के सहारे सहारे चलते हुए लाईन को दाये छोड़ते हुए पीर बाबा को बाये लेते हुए पहाड़ी पर वायरलेस पोल को व गुजरों के मन्दिर व माण्डपा बालाजी डालचन्द का भट्टे को दाये छोड़ते हुए घनश्याम अध्यापक के मकान को शराब ठेका व नन्द किशोर अध्यापक के मकान को बाये शामिल करते हुए कालू/किसना रेगर गोपाल/माधोलाल रेगर को दाये छोड़ते हुए कल्याण गुजर सत्यनारायण मेहर सूरज/श्यामलाल बैरवा लट्टूर लाल को बाये लेकर मांगीलाल माली हीरालाल/मोड़ लाल रामनारायण प्रजतापत को दाये छोड़ते हुए गली में चलते हुए ए.सी.सी. अस्पताल को बाये लेकर पुरानी उप तहसील क्वाटर व राजकीय सामुदायिक भवन व एसीसी फैक्ट्री व डारेक्टर प्लान्ट के बंगले को दाये छोड़ते हुए चुंगीनाका सिनेमा हाल की साईड चन्द्रमोहन जोशी के कुए की दायी साईड को दाये छोड़ते हुए नगर पालिका दुकानों, मोटर मार्केट को बाये लेकर घासी लाल अध्यापक, बडोदा बैंक को दाये छोड़ते हुए रोड रोड चलते हुए टी.आर.टी. क्वाटरों को बाये शामिल करते हुए सब्जीमण्डी को बाये लेकर लाईन क्रास कर ए.सी.सी. के यूनियन आफिस पर आकर समाप्त होगा।</p>
22 (बाईस)	<p>मुनिसिप कोर्ट से प्रारम्भ होकर गरमपुरा सडक पर चलते हुए दुर्गलाल पारेता की दुकानों को बाये शामिल करते हुए पानी के टैंक सूरजमल पारेता व जन्सीलाल खटीक को दाये छोड़ते हुए गोपाल/गणेशराम को बाये छोड़ते हुए सोहन लाल महावर को दाये छोड़ते हुए गली में घुसकर श्याम टेलर पूर्व पार्षद के मकान को छोड़ते हुए नारायण महावर के मकान को बाये शामिल करते हुए रामदेव जी के मन्दिर को दाये छोड़ते हुए छोटू लाल/शंकर लाल महावर को बाये शामिल करते हुए पूरणजी/ रामचन्द्र जी कहार के मकान को बाये शामिल करते हुए घनश्याम कश्यप/राम चन्द कश्यप के मकान के पास गली में घुसते हुए लट्टूर लाल कमल किशोर/किशन भोई को दाये छोड़ते हुए मांगी लाल/छीतर लाल को दाये छाड़ते हुए काली बाई/रामनारायण महावर को बाये शामिल करते हुए नीचे सिडियों से उतर कर ए.सी.सी. फैक्ट्री की दीवार के सहारे चलते हुए तालाब की ओर खरन्जे के रास्ते चलते हुए शंकर बन के मठ को दाये छोड़ते हुए नाना देवी को दाये छोड़ते हुए नाले के सहारे सहारे 30 गफूर अध्यापक को दाये छोड़ते हुए मुख्य सडक पर आकर डा० मांगीलाल मीणा गांधीपुरा प्रा० वि० नगर पालिका कियोस्क दुकानों को बाये लेकर मख्खन लाल राजेन्द्र पटवारी चुंगी नाका नं० 1 को दाये छोड़ते हुए बाईस प्रेसिडेन्ट के बंगले व एसीसी फैक्ट्री परिसर को बाये लेकर पोस्ट आफिस व पानी की टंकी महावीरपुरा हरिजन बस्ती को दाये छोड़ते हुए नयापुराजाने वाली सडक के सहारे महावीर व देहलिया, बालकिशन को बाये शामिल करते हुए बृजमोहन गरोलिया को दाये छोड़ते हुए जन्द जी के स्थान रामस्वरूप गोचर व राधेश्याम महावर को बाये शामिल करते हुए व रामपाल खंगार को दाये छोड़ते</p>

	हुए दुर्गा पंडित की टापरी व मनभर मोहन लाल के मकान को बाये शामिल करते हुए देवी शंकर बाबू लाल, राजेश / रामपाल के मकान को दाये छोड़ते हुए गुलाबचन्द महावर को दाये छोड़ते हुए सामने शौचालय को शामिल करते हुए गली में पक्के रास्ते से निचे उतरकर घास भैरू को बाये शामिल करते हुए सम्पूर्ण कोलियों की टापरियों के शामिल करते हुए मोड़ लाल महावर व चतरा जोधा व बाबू लाल महावर को शामिल करते हुए यूनियन आफिस व सब्जीमण्डी को शामिल करते हुए मुनिसफ कोर्ट पर आकर समाप्त होगा।
23 (तेर्फ़िस)	ए.सी.सी. फिल्टर टेन्क से प्रारम्भ होकर नयापुरा की ओर मुख्य सड़क पर चलते हुए ए.सी.सी. स्कूल पुलिस चैकी नयापुरा शिव मन्दिर की बस्ती को दायें छोड़ते हुए राम लीला मैदान, बृजमोहन कहार व स्टबेर को बाये शामिल करते हुए लक्ष्मीचन्द महावर लाल चन्द के मकान को शामिल करते हुए आगे आगे रास्ते चलकर चतरा कलाल / जोधा के मकान को दाये छोड़ते हुए सुनिता बाई के मकान को शामिल करते हुए पानी की टंकी को बायें छोड़ते हुए राम लक्ष्मण महावर केक मकान को दाये छोड़ते हुए गली में घुस कर सम्पूर्ण कोलियों की टापरियों को दाये छोड़ते हुए सन्तोष राजावत के मकान को शामिल करते हुए होदियों की टापरियां को शामिल करते हुए घास भैरू के रास्ते उपर चढ़ते हुए गुलब चन्द, बृज मोहन गरोलिया को बाये शामिल करते हुए बाल किशन गोचर को दायें छोड़ते हुए सीताराम सैनी के मकान को बाये शामिल करते हुए मकान के पिछे से खाली जगह से फिल्टर टेन्क ए.सी.सी. पर आकर समाप्त होगा।
24 (चैबीस)	पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय से प्रारम्भ होकर ए.सी.सी. गेस्ट हाउस सम्पूर्ण हरिजन बस्ती व महावीरपुरा बस्ती को बाये शामिल करते हुए पानी की टंकी यूनियन आफिस, पोस्ट आफिस राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को बाये शामिल करते हुए उसके पास की क्वाटर को बाए लेकर ए.सी.सी. अस्पताल की बाउण्ड्री के सहारे सहारे एसीसी अस्पताल व सीनेटरी इन्सपेक्टर आफिस को दाए छोड़ते हुए कवरं लाल गुजर के खेत को दाए छोड़ते हुए कालूलाल, मोतीलाल गुजर रामावतार, जगदीश रामनारायण प्रजापत को बाए लेकर धन्ना लाल बिशन लाल, बद्री लाल गोठिया लटूर लाल रामदेव, सूरजमल/ श्याम लाल बैरवा सत्यनारायण मेहर कल्याण गुजर, नन्द किशोर अध्यापक की साईड को दाये छोड़ते हुए राधेश्याम हीरा लाल मोड़ लाल/राधेश्याम मोड़ लाल तुलसीराम बिसना मांगीलाल माली को बाए लेकर गोपाल माधो लाल हीरा लाल बाल किसन रेगर को बाये लेकर डालचन्द के खेत व भट्टे को बाए लेते हुए नाले के सहारे सहारे एसीसी स्कूल की ओर चलते हुए यहां से सीधा खेतों में होते हुए कोलियों की बस्ती को दाये छोड़ते हुए एसीसी स्कूल की बाउण्ड्री वाल के सहारे सहारे चलकर पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय पर आकर समाप्त होगा।
25 (पच्चीस)	श्री गुरु बक्स रामचन्दनानी की दुकान को दाहिने शामिल करते हुए गली में जगदीश मेहरा के मकान को शामिल करते हुए राधेश्याम के मकान को शामिल करते हुए किशन सिंह को छोड़ते हुए सीधे सड़क पर गली में जन्नत के मकान

	को छोड़ते हुए धमेन्द्र के खेत से चलते हुए नगर पालिका शौचालय को शामिल करते हुए मेंगा हाईवे के नाले से क्रॉस करके पहाड़ी के सहारे सहारे बायी ओर चलते हुए ए.सी.सी. स्कूल के पिछे कच्चे रास्ते पर होकर पानी की टंकी को छोड़ते हुए ए.सी.सी. स्कूल को शामिल करते हुए मुख्य रोड पर रामलीला मैदान को छोड़ते हुए इन्द्रगढ़ रोड पर चलते हुए दाहिने और की समस्त बस्ती को शामिल करते हुए लक्ष्मीचन्द महावर की दुकान को बाये छोड़ते हुए गुरुबक्स की दुकान के पास आकर समाप्त होगा।
26 (छब्बीस)	आर एस इ बी कालोनी कालबेलिया बस्ती को शामिल करते हुए पहाड़ी के सहारे सहारे हाईवे को क्रॉस करते हुए फूटा पम्प के नाले के पास से प्रवेश करते हुए उपर सड़क सड़क नगर पालिका सार्वजनिक शौचालय को बाए छोड़ते हुए जगदीश मेहरा के बाड़े को दाये शामिल करते हुए रसीद पठान के मकान को बाए छोड़ते हुए चैथमल मील व इस्माईल के मकान को दाए शामिले करते हुए करीम बक्श के मकान को बाये छोड़ते हुए जन्नत बेगम के मकान को दाएं शामिल करते हुए रोड रोड चलते हुए देवीशंकर धाकड़ व राधेश्याम मेहर के मकान को दाये शामिल करते हुए बृजमोहन आत्मज ओकार लाल मेहर के मकान को बाए छोड़ते हुए ओमपाल सिंह के मकान एवं हरिशंकर मेहारा पूर्ण उपाध्यक्ष के मकान को दाएं शामिल करते हुए शिव मन्दिर की गली से मुख्य सड़क पर आकर गुरुबक्स रामचन्दनानी की दुकान को बाए छोड़ते हुए बाबू लाल महावर की दुकान को शिव मन्दिर की साईड को शामिल करते हुए लक्ष्मीचन्द महावर पीर मोहम्मद की दुकानों को बाएं छोड़ते हुए सीधे सीधे सड़क सड़क रोड पर चलते हुए आर एस इ बी कालोनी पर आकर समाप्त होगा।
27 (सत्ताईस)	माधोलाल की दुकान मकान से शुरू होकर सत्तार दीपक/रामदेव खटिक के मकान को बाये शामिल करते हुए नयापुरा चैराहा पर नाथू लाल की दुकान व मकान को छोड़ते हुए पूर्व पार्श्व चैथमल पारेता महावीर टेन्ट हाउस बाबू पारेता के मकान को शामिल करते हुए इन्द्रगढ़ रोड पुराना चुंगीनाका व हनुमान जी गर्ग की दुकान को छोड़ते हुए सीधे पुलिस थाने की साईड को शामिल करते हुए पावर हाउस को छोड़ते हुए पिछे लोडी के खाल के सहारे राधा कृष्ण मन्दिर को शामिल करते हुए दीनदयाल कालोनी को शामिल करते हुए श्याम बाबा के चबूतरे से गली में प्रवेश करते हुए गोपाल/अमरा को छोड़ते हुए व मंगला भगवान दास सोहन महाराज के मकान को छोड़ते हुए गली में रोड हेण्डपम्प के पास प्रेम शकर के मकान व देव स्थान को शामिल करते हुए प्रेम प्रकाश की दुकान को छोड़ते हुए माधो लाल जी की दुकान पर आकर समाप्त होगा।
28 (अठाईस)	ए.सी.सी. क्वाटर के पास से शुरू होकर हेण्ड पम्प को व कस्तूरा जी कलाल के मकान को बाये छोड़ते हुए कौशल जी के मकान व राममूर्ति के मकान को बाये छोड़ते हुए अब्दुल हकीम के मकान को दाये शामिल करते हुए शेर खां/अख्तर खां के मकान को शामिल करते हुए डी.पी. के पास लोडी के खाल के सहारे सहारे चलते हुए श्याम बाबा के चबूतरे को बाये छोड़ते हुए गोपाल/ अमरलाल हरिजन

	को शामिल करते हुए मंगला हरिजन, भगवान दास सोहन महाराज के मकान को शामिल करते हुए रामदेव जी के मकान को छोड़ते हुए रोड रोड चलते हुए रतन कुमार हेण्डपम्प को शामिल करते हुए प्रेम शंकर के मकान व देव स्थान को छोड़ते हुए कृष्ण मुरारी के मकान को शामिल करते हुए प्रेम प्रकाश की दुकान को शामिल करते हुए माधोलाल कलाल को छोड़ते हुए गली में सामने लाल मोहम्मद व जमना लाल जी की दुकान दुर्गलाल पारेता के मकान को छोड़ते हुए रामजी लाल के मकान को शामिल करते हुए रोड रोड फैक्ट्री क्वाटर (चालीस क्वाटर) पर आकर समाप्त होगा।
29 (उन्तीस)	श्री सूरजमल पारेता इन्द्रपुरा पानी का टैंक को बाये गरमपुरा रोड पर चलते हुए पूर्व वार्ड पार्षद रामजीलाल के मकान व मुख्तार की दुकान को छोड़ते हुए खान के उपर ए.सी.सी. क्वाटरों को शामिल करते हुए राधेयाम मेहरा की क्वाटरों व शम्भू पारेता अध्यापक के मकान को दाये छोड़ते हुए रोड रोड चलते हुए धर्मन्द्र पारेता, सत्यनारायण के मकान क्वाटरों को बाये शामिल करते हुए छोटी दुकान की साईड जमील अन्सारी रा०३०प्रा० गरमपुरा माताजी के मन्दिर को बाये लेकर सत्यनारायण पारेता सिंगल यूनिट क्वाटर को दाये छोड़ते हुए पुराना अस्पताल व पुराना श्रम कल्याण केन्द्र को दाये छोड़ते हुए महावीर बंशीलाल मेहर व शीतला माता को बाये लेकर झरन्या के खेले व खाल के सहारे सहारे चलकर तालाब व एसीसी फैक्ट्री को दाये छोड़ते हुए बाउण्ड्री के सहारे सहारे खान में निचे उतर कर इन्द्रपुरा में सिडियों से ऊपर चढ़कर मांगीलनाल के मकान को शमिल करते हुए गली में चलते हुए कान्ता बाई/नारायण को छोड़ते हुए कमल किशोर कहार को बाये शामिल करते हुए घनश्याम कश्यप को दाये छोड़ते हुए गली में रामदेव जी मन्दिर को बाये शामिल करते हुए पूर्व पार्षद श्याम लाल टेलर को बाये शामिल करते हुए रमेश जी जगरोटिया को दाये छोड़ते हुए प्रभु लाल को शामिल करते हुए गोपाल महावर के मकान को दाये छोड़ते हुए रोड पर टेक की तरफ हटील जी के मकान एवं घनश्याम मेहरा के मकान को बाये शामिल करते हुए सूरजमल पारेता इन्द्रपुरा पानी की टंकी पर आकर समाप्त होगा।
30 (तीस)	श्री चैथमल गोपाल रेगर के मकान से प्रारम्भ होकर हरलाल धन्ना के मकान को दाये छोड़ते हुए सम्पूर्ण बायी साईड के मकानों को शामिल करते हुए गोपाल अध्यापक सीताराम कहार के मकान को बाये लेकर आम रोड पर चल कर बड़ी दुकान, एलचीराम की दुकान व छोटी दुकान को बाये छोड़ते हुए मस्जीद को बाये शामिल करते हुए शम्भू लाल पारेता अध्यापक के मकान को बाये शामिल करते हुए ए.सी.सी. क्वाटर को दाये छोड़ते हुए कस्तूरचन्द जी पारेता के मकान माधो लाल कलाल के मकान को शामिल करते हुए कौशल पारेता के मकान को शामिल करते हुए फाखरु जी के मकान को दाये छोड़ते हुए अन्दर गली में रमेश/गोपीलाल खटीक को छोड़ते हुए रामर्ति / मथरालाल के मकान को शामिल करते हुए जगन्नाथ/रामचन्द्र के मकान के पास गली में अन्दर जाते हुए अब्दुल सत्तार के मकान को शामील करते हुए रोड रोड असलम भाई, अब्दुल हमीद सलीम भाई/

	अख्तर खां को बाये शामिल करते हुए शेर खां/अख्तर को छोड़ते हुए बिजली की डी.पी. को छोड़ते हुए लोडी के खाल के सहारे सहारे चैथमल रेगर के मकान पर आकर समाप्त होगा।
31 (ईक्टीस)	पुराने अस्पताल से प्रारम्भ होकर रोड रोड चलते हुए सत्यनारायण पारेता, रमेशचन्द्र/ चतरालाल, ओम प्रकाश बिरधी लाल खटीक व सिंगल यूनिट क्वाटर को बाए लेते हुए माताजी के चबूतरा राज0 प्राथमिक विद्यालय गरमपुरा, जमील अन्सारी को दाय छोड़ते हुए गली में घुसकर बाबूदीन भिश्ती की दुकान को बाए लेते हुए सीताराम कहार, गोपाल लाल अध्यापक को दाए छोड़ते हुए ए.सी.सी. क्वाटर गफार भाई बीड़ी वाला, नन्द किशोर अध्यापक हरलाल / धन्ना को बाए लेते हुए चैथमल को दाए छोड़ते हुए खाल में उत्तरकर हरिजन बस्ती को बाए लेते हुए पहाड़ी के पठार पठार टाल के बालाजी को बाए शामिल करते हुए रास्ते रास्ते चलकर पुराना श्रम कल्याण केन्द्र को बाये शामिल करते हुए टेनिस कोर्ट पर होकर माताजी का चबूतरा महावीर/बंशीलाल मेहर को दाए छोड़ते हुए पुराना अस्पताल पर आकर समाप्त होगा।
32 (बत्तीस)	नगर पालिका कार्यालय से प्रारम्भ होकर बस स्टेप्ड की ओर चलते हुए सुन्दरलाल, भानु सैनी, बजरंग लाल पुरोहित श्रवण लाल अध्यापक के मकानों वाली सम्पूर्ण बस्ती को बाये शामिल करते हुए उपखण्ड कार्यालयबी.कोम सा0 का खेत को दाए छोड़ते हुए बस स्टेप्ड व नगर पालिका प्याउ को बाये शामिल करते हुए शमसान जाने वाले रोड पर चलकर राज0 30 मा0 वि0 लाखेरी को दाये छोड़ते हुए तालाब की पाल के सहारे सहारे चलते हुए कनिष्ठ अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग के कार्यालय शमसान घाट, हीरालाल दुबे शंकर बन मठ को दाये छोड़ते हुए खरन्जे पर उपर चढ़कर ए.सी.सी. की लाईन के सहारे सहारे हरिजन बस्ती की ओर चलते हुए खरन्जा के मोहल्ले को दाये छोड़ते हुए नवीन सम्पूर्ण हरिजन बस्ती को बाये शामिल करते हुए नगर पालिका शौचालय व सामुदायिक भवन को बाये लेकर तमोलियान दरवाजे पर होकर लाईन के सहारे सहारे सम्पूर्ण रेगर बस्ती को दाये छोड़ते हुए विजय गेट तक यहां से सम्पूर्ण ओडपाडा को बाये लेते हुए ए.सी.सी. लाईन से सीधा विजय गेट पर उत्तर कर जानकी लाल सिन्धी की लकड़ी की बाड़ी को बाये लेकर नेमीचन्द आर. जैन. डा. श्याम बजाज बालमुकन्द जैन के मकान व दुकान वाली सम्पूर्ण बायी साईड को बाये लेकर बाबू लाल सेदावत मोती लाल गर्ग की दुकान वाली साईड को दाये छोड़ते हुए राज0 उच्च प्राथ. वि0 लाखेरी शहर को बाये लेकर नगर पालिका कार्यालय पर आकर समाप्त होगा।
33 (तैतीस)	पुराना पुलिस थाना से प्रारम्भ होकर गली में घुसकर बतूल बाई हरिश शर्मा श्रवण लाल लखारा को बाये लेकर मोहम्मद अमीन पठान मुस्ताक ठेकेदार चैथमल गुरु प्रकाश चायवाला को बाये छोड़ते हुए गाबरी लाल पंचोली मुस्तकीम महावीर गोयल की दुकान को बाये शामिल करते हुए यहां से सीधा विजय गेट के उपर लाईन पर चढ़ते हुए लाईन लाईन हरिजन बस्ती की ओर चलते हुए तमोलियान

	दरवाजा तक यहां से लाईन से नीचे उतरते हुए प्रेमचन्द / रामलाल बैरवा रेगरान धर्मशाला द्वारकानाथ मन्दिर की साईंड को दाये छोड़ते हुए पंचायती कुआ हरिनारायण / शिव प्रसाद रेगर पंचायती कमरा बाबू लाल चन्दा बाबू लाल / गोमदा रेगर को बाये लेते हुए गुलाबचन्द व राजमल / गोगा बैरवा को दाये छोड़ते हुए बुद्धि प्रकाश / नाथू लाल खटीक को बाये लेकर रामलाल बैरवा बाबू लाल / गोगा जगन्नाथ / कवंरलाल पूरणमल यादव महेश यादव सामुदायिक भवन महादेव जी मन्दिर से सिढिया उतकर कर दायी साईंड को दायी छोड़ते हुए कमलेश मीणा कुञ्ज बिहारी मीणा को बाये शामिल करते हुए हनुमान धोबी पं० भीमराज श्रंगी को दाये छोड़ते हुए बृजमोहन मीणा चैथमल / हीरा लाल नाई को बाये लेकर जोशी हरिनारायण शिवनारायण जोशी को दाये छोड़ते हुए गिरिजा शंकर श्रृंगी को बाये लेकर प्रभु लाल धोबी की दुकान हरिशचन्द अध्यापक को बाये लकर उच्छब लाल हलवाई की दुकान तक यहां से थना रोड पर चलते हुए महावीर पारासर दुर्गलाल जोशी की दुकान को दाये छोड़ते हुए फकड़या महाराज की गली व शंकी मन्दिर को बाये शामिल करते हुए पुराना पुलिस थाना पर आकर समाप्त होगा।
34 (चोतीस)	रेगरान पंचायत धर्मशाला से प्रारम्भ होकर रोड क्रोस कर प्रेमचन्द रामलाल कारीगर को बाये शामिल करते हुए रेल्वे लाईन पर उपर चढ़कर नगर पालिका सार्वजनिक सामुदायिक भवन व सम्पूर्ण हरिजन बस्ती को दायें छोड़ते हुए खाल में होकर सम्पूर्ण रावला बस्ती को बायें लेकर पठार - 2 चलकर तमोलखाना के सहारे काली कंकाली को बाये लेते हुए खाल में उत्तर कर यहां से कमलेश सिंह के मकान को बायें शामिल करते हुए नाईयों के मोहल्ले हीरा लाल नाई, भेरूजी का चबूतरा को दाये छोड़ते हुए यहां से माधो लाल , सूरजमल, बजरंग लाल सलावट व प्रेमचन्द यादव, तुलसीराम यादव को बायें शामिल करते हुए सूरजमल,नाथू लाल गूजर, भंवर लाल अरडाट के मकान व गफूर लीलगर के मकान चैथमल तम्बोली, जुगल यादव को दायें छोड़ते हुए बाबू लाल यादव को बाये शामिल करते हुए नगर पालिका सामुदायिक भवन को बायें लेकर षिव मन्दिर, को दायें छोड़ते हुए महेश यादव व पूरण मल यादव अध्यापक मकान को बाये लेकर पार्क के अन्दर होकर रेगरान बस्ती में रोड पर नीचे उत्तरते हुए जगन्नाथ कवरण लाल रेगर बाबू लाल गोगा बैरवा भेरूलाल मीणा बुद्धि प्रकाश नाथू लाल बाबू/गोमदा रेगर को दाये छोड़ते हुए राजमल बैरवा गुलाब चन्द/सीताराम रेगर को बाये लेकर बाबू लाल / चन्दा हरिनारायण को दाये छोड़ते हुए द्वारकानाथ मन्दिर को बाये शामिल करते हुए रेगरान पंचायत धर्मशाला पर आकर समाप्त होगा।
35 (पैतीस)	जोशी हरिनारायण से प्रारम्भ होकर गली में चलते हुए पं० भीमराज श्रंगी हनुमान धोबी को बाए लेकर हीरालाल नाई बृजमोहन मीणा भेरूलाल पटेल को दाये छोड़ते हुए नाथू लाल मेहर व शिव मन्दिर को बाए लेकर सामुदायिक भवन व बाबू लाल यादव तुलसीराम यादव प्रेमचन्द यादव को दाये छोड़ते हुए जुगल यादव चौथमल

	तम्बोली गफूर मोहम्मद भंवर लाल अरडाट के मकानों व सम्पूर्ण बैरवा बस्ती को बाए शामिल करते हुए नाथू लाल गुजर सूरजमल गूजर अम्बालाल व भैरू जी के स्थान व सम्पूर्ण नाईयों के खोल्ले को बाये लेकर कमलेश/ मोहन सिंह के मकानों व सम्पूर्ण तम्बोलखाना बस्ती को दाये छोड़ते हुए फूटा रावला नया जैन मन्दिर चारभुजा मन्दिर जगात हट्टी लाल बोहरा प्रकाश जैन की दायी साईड को दाये छोड़ते हुए जगदीश सुनार श्याम सोनी कन्हैया लाल सोनी विद्यानन्द गुप्ता के मकान को बाये शामिल करते हुए उच्छब लाल हलवाई हरिशचन्द जैन प्रभु लाल धोबी की साईड को दाये छोड़ते हुए रघुनन्दन त्रिगुनायत, शिवनारायण जोशी को बाये शामिल करते हुए जोशी हरिनारायण के मकान पर आकर समाप्त होगा।
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अधिशाषी अधिकारी  
नगर पालिका लाखेरी

---

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।